

हमेशा करें बड़ों का सम्मान!

हमें हमारे पेरेंट्स हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करने, उनका सम्मान करने को कहते हैं, क्योंकि यह आदत **GOOD MANNERS** की श्रेणी में आती है। तो इस बार हम जानेंगे कि ऐसी क्या **ACTIVITIES** हैं जिन्हें करके हम उनके प्रति आदर दिखा सकते हैं।

- ▲ जब भी बड़े हमसे बात कर रहे हो तो **TV**, **iPAD**, या कुछ भी हम कर रहे हैं उसे छोड़कर उनकी बात पहले सुननी चाहिये।
- ▲ घर पर यदि कोई **GUEST** आये हैं तो खड़े होकर **GATE** खोलना उन्हें **GREET** करना चाहिये।
- ▲ **PROPER TITLES** यानि कि अंकल, आंटी, भैया, दीदी आदि उपयोग में लेना चाहिये।
- ▲ जब बड़े हमें कुछ बता रहे हो या वे आपस में ही किसी और से बात कर रहे हों तो हमें उनकी बात खत्म होने का **WAIT** करना चाहिये फिर अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिये।
- ▲ यदि हम **ELEVATORS** या **LIFT** का प्रयोग कर रहे हों तो पहले उन्हें जाने के लिये जगह देना चाहिये।
- ▲ **प्लीज, थैंक्यू** जैसे गोल्डन वर्ड्स का उपयोग करना चाहिये।

यदि हम बड़ों का सम्मान करते हैं तो उनका **आशीर्वाद** हमेशा हमारे सर पर रहता है जिससे जीवन के सभी क्षेत्र में **सफलता** मिलती है। बड़ों का आशीर्वाद सभी को लेना चाहिये, जब भी हम किसी महत्वपूर्ण काम के लिये जा रहे हो तब तो बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। **जब भी हम किसी अधिक उम्र के व्यक्ति से मिले उनका आदर करें, सम्मान करें, जीवन में आगे बढ़ने के लिये हमें बड़ों को आदर करना सीखना ही चाहिये।**